

प्रेस विज्ञप्ति, 08/05/2022

आज 'विश्व थैलेसीमिया दिवस' एवं 'मातृ दिवस' के अवसर पर गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के गुरु श्री गोरक्षनाथ रक्त कोष में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन

आज 'विश्व थैलेसीमिया दिवस' व 'मातृ दिवस' के अवसर पर गुरु श्री गोरक्षनाथ रक्त कोष के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं ने बढ-चढ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों ने थैलेसीमिया के प्रति सतत जागरूक रहने हेतु आह्वान करते हुए मातृ शक्ति के प्रति सदैव आदर व सम्मान का भाव व्यक्त करने का आग्रह किया।

ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अवधेश अग्रवाल जी ने मातृ दिवस की बधाई दी और थैलेसीमिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक करते रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने हुए कहा कि लोगों में इस रोग संबंधी जागरूकता फैलानी चाहिए। सभी लोग अवश्य रक्तदान करें, ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। रक्तदान जैसे महादान में सबको प्रतिभागी बनना चाहिए।

उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया माता-पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती है। विशेष रूप से लडकों अथवा पुरुष में बचपन से ही बच्चों में होने वाली इस बीमारी में रक्त की कमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि रक्त जांच हमेशा कराते रहना चाहिए।

गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉ अतुल बाजपेई जी ने कहा कि थैलेसीमिया एक जानलेवा अनुवांशिक रोग है। इस रोग में हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया नियमित नहीं रहती, असंतुलित हो जाती है। उन्होंने कहा कि

रक्तदान शिविर का प्राथमिक लक्ष्य जिले में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद करना है।

ब्लड बैंक अधिकारी डॉ. ममता जायसवाल जी ने थैलेसीमिया रोग के माइनर, इंटरमीडिया व मेजर प्रकारों एवं लक्षणों के बारे में विस्तार से चर्चा की। शिविर में मुख्य रूप से विरेन्द्र प्रताप, मोनिका, मुकेश, रत्नेश, नौशाद आलम, विपिन पाण्डेय सहित 30 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य व्यक्ति चिकित्सालय के अधिकारी, टेक्नीशियन चंद्रेश्वर, आदित्य सिंह, निधि आदि उपस्थित रहे। श्री कामेश्वर सिंह जी ने रक्तदाताओं व अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।